

RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED

Office: "Priyadarshini", Eastern Express Highway, Sion, Mumbai 400 922 - Website: www.rcfltd.c • Phone: 022-24045024/ Fax:022 24045022 - Email Id: investorcommunications@rcfltd.com

NOTICE

(for kind attention of Shareholders of the Company)

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR **EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY**

Notice is hereby given that the Company would be transferring all those equity shares on which dividends have remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years to IEPF Account established by the Central Government pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2016, as amended from time to time.

The Company vide letter dated July 8, 2025, communicated to concerned shareholders, who have not encashed the dividend for the Financial Year 2017 18 and all subsequent dividends declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF Authority Account as per the said Rules.

A list of such shareholders who have not encashed their dividends for sever consecutive years and whose shares are liable to transfer to the IEPF Authority Account is available on Company's website at the web link https://www.rcfltd.com/public/storage/investers/1751974394.pdf

Shareholders are requested to forward the required documents as nentioned in the said Letter to the Company or the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s MUFG Intime India Private Limited to claim unclaimed dividend amount(s).

In the event the Company does not receive valid claim from the concerned Shareholder(s) by October 31, 2025 or such other date as may be specified, the Company shall with a view to comply with the requirement set out in the Act and Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date as per procedure stipulated in the Rules which is as under

i) In case of shares held in demat form-by transfer of shares directly to

demat account of IEPF Authority with the help of Depository Participants; ii) In case of shares held in physical form-by issuances of new share certificate in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialization and thereafter transferring the same to IEPF

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the

Kindly note that all future benefits accruing on such shares would also be credited to IEPF Authority Account. Shareholders may note that, both the unclaimed dividend and the shares, transferred to IEPF Authority can be claimed back from IEPF Authority, by filing Web Form IEPF-5 available at the access link on website www.iepf.gov.in The procedure for claiming the unpaid amount and shares transferred to the IEPF Authority by submitting the documents as available in Company's website at www.rcfltd.com under heading Investor Relation-Investor Education and Protection Fund.

For any information/clarifications on this matter, concerned Shareholders are requested to write or contact to Company Secretary, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, "Privadarshani", Eastern Express Highway, Sion, Mumbai 400 022. Tel No. 022 24045024, Email: investorcommunications@rcfltd.com or Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. MUFG Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel No. +91 810 811 6767, Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com For Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited

(J. B. Sharma) **Executive Director** Place: Mumbai (Legal & Company Secretary) Date: July 10, 2025

Let us grow together



www.greenlamindustries.com

GREENLAM INDUSTRIES LIMITED Registered & Corporate Office: 203, 2" Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi-110037, India Phone No.: +91-11-4279-1399, CIN: L21016DL2013PLC386045 Email: investor.relations@greenlam.com; Website: www.greenlamindustries.com

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 12" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Greenlam Industries Limited ("Company") will be held on Thursday, July 31, 2025 at 03:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013") and rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2024 dated September 19, 2024 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), to transact the businesses set out in the Notice of the 12th AGM.

The Notice of the 12" AGM along with the explanatory statement and Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent electronically on July 09, 2025 to those Members who have registered their e-mail address with the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent / Depository and whose name appears in the register of members as on the close of the business hours of July 04, 2025. Physical copies of the aforesaid documents are not being sent to the Members in accordance with the aforesaid MCA Circulars and other applicable circulars, unless specific request for hard copies by the

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the businesses to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before the AGM (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and e-voting during the AGM and the same will be provided by MUFG Intime India Private Limited ("MUFG") (formerly known as Link Intime India Private Limited), registrar and share transfer agent of the Company. All the Members are hereby informed that:

 a) The remote e-voting period shall commence at 09:00 a.m. IST on July 28, 2025 and shall end at 5:00 p.m. IST on July 30, 2025. The facility for remote e-voting shall be discontinued thereafter

b) Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. July 24, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

 c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. July 24, 2025, needs to refer the instruction given in the Notice which is available on the website of the Company i.e. www.greenlamindustries.com regarding login ID

d) Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the close of the working hours of the aforesaid cut-off date and not casting their vote by way of remote evoting, may cast their vote at the AGM through e-voting system.

 e) A Member may participate in the Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the Meeting. f) Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed

to be changed subsequently or cast again.

g) The notice of AGM and the Annual Report is available on the Company's website www.greenlamindustries.com, on the MUFG's website www.in.mpms.mufg.com and the website of the stock exchanges(s) viz; NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com)

h) Norms for Furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination: Pursuant to the relevant SEBI Circulars, with effect from April 01, 2024, dividend shall be paid through electronic mode to the members holding shares in physical form only if the folio is KYC compliant. A folio will be considered as KYC Compliant on registration of all the details viz. full address with pincode, mobile no., e-mail address, bank account details, specimen signature, valid Permanent Account Number ('PAN') linked to Aadhaar of all the holders in the folio, etc.

 For any queries or grievances connected with the facility for voting by electronic means, the Members may refer to the Frequently Asked Questions and InstaVote e-voting manual available at https://www.instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call at Tel: 022 - 49186000 or to Mr. Prakash Kumar Biswal, Company Secretary & Senior Vice President-Legal, 203, 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi-110037 at investor.relations@greenlam.com or contact at +91-11-42791399.

Place: New Delhi

Date: July 09, 2025

Mikasa Mikasa

For Greenlam Industries Limited

Prakash Kumar Biswal Company Secretary & Senior Vice President-Legal

DEEPAK SPINNERS LIMITED CIN L17111HP1982PLC016465

Regd. Office: 121 Indl. Area, Baddi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, Himachal Pradesh-173205 Tel nos. 01795 244011 /16

Website: www.dsl-india.com Email: puneeta.arora@dslindia.in

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 DATED 02.07.2025, a special window shall be opened for a period of six months from 7th July 2025 till 6th January 2026, for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of 1st April 2019 and were returned/rejected due to deficiency in documents/process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialised mode

Eligible shareholders may contact our Registrar and Transfer Agents, M/s. Maheshwar Datamatics Pvt. Ltd., 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata 700001 by sending them email at mdpldc@yahoo.com. For DEEPAK SPINNERS LIMITED

Nippon india Mutual Fund

option of the undernoted scheme of NIMF, with July 14, 2025 as the record date:

*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable.

#or the immediately following Business Day if that day is a non-business day

Name of the Scheme(s)

Nippon India Balanced Advantage Fund - IDCW Option

Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct Plan -

IDCW Option

mentioned above, whichever is lower.

Scheme as on record date.

Mumbai

July 09, 2025

PUNEETA ARORA

Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg,

Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000

Fax No. +91 022 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com

NOTICE NO. 35

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following

Distribution on the face value of Rs. 10/- per unit under Income Distribution Cum Capital Withdrawal (IDCW)

Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Scheme will fall to the extent

of payout, and statutory levy, if any. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned

Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date

For units in demat form: IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear

in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned scheme, whose names appear on the

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Place: Baddi COMPANY SECRETARY Date: 09.07.2025



Gujarat Informatics Limited

Block No.: 2, 2nd Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10, Gandhinagar-382010 (Gujarat). Phone: 079-23256022

GIL invites Expression of Interest (EoI) for "Vehicle Tracking System" for The Gujarat State Civil Supplies Corporation Ltd. (GSCSC) (Eol No. HWT08072025) on (n)Procure Platform. Interested parties may visit http://www.gil.gujarat.gov.in or and https://www.nprocure.com/ for eligibility criteria & more details about the Eol.

Amount of

Distribution

(₹ per unit)*

0.2200

For Nippon Life India Asset Management Limited

(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Managing Director

Record Date

July 14, 2025#

NAV as on July 08,

2025 (₹ per unit)

33.5308

46.8622

Authorised Signatory

MUTUAL



Regd Off: 19th K.M., Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, UP - 203408 Corp Off: Plot no. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel No; 011-40322100; E-mail Id: cs_jpifcl@jindalgroup.com; Website: www.jpifcl.com

> NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 13" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Jindal Poly Investment and Finance Company Limited ("the Company") will be held on **Thursday**, July 31, 2025 at 04.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the

Companies Act, 2013 and rules made thereunder and in compliance of MCA Circulars bearing No. 09/2024 dated September 19, 2024, Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023, Circular No. 2/2022 dated 05.05.2022, 19/2021 dated 08.12.2021, 20/2020 dated 05.05.2020 other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (hereinafter collectively referred to as ('SEBI Circulars') issued by SEBI and other applicable notifications in this regard permitted the holding of the Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ("VC") facility or other audio visual means ("OAVM")... Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.jpifcl.com and website of the Stock Exchanges i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com. For Members who have not registered their e-mail address, a letter containing exact web-link of the website i.e. www.jpifcl.com where details pertaining to the entire Integrated Annual Report is hosted is being sent at the address registered in the records of RTA/Company/Depositories.

Remote E-Voting Information

The Company has engaged the services of Kfin as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote e-voting period will commence from Monday, 28" July, 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 30" July, 2025 (5:00 p.m. IST). During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by Kfin for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 30° July, 2025. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already casted their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote evoting and e-voting at the AGM is Thursday, 24" July, 2025. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to 1800-3454-001 evoting@Kfintech.com by mentioning folio no./DPID and Client Id or contact on: - Tel: 022-23058738 to cast his/her vote. If the member is already registered with Kfin for e-voting then existing USER ID and password can be used for casting the vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.

Book Closure Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with

applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed Friday, 25" July, 2025 to Thursday, 31" July 2025, both days inclusive, for the AGM. n case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC/OAVM participation,

members may contact KFin Technologies Limited at the toll free No. 1800-345-4001 or write at einward.ris@kfintech.com and evoting@kfintech.com.

By the Order of the Board of Directors For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

Company Secretary

Swati Tiwari

Place: New Delhi Date: 09" July, 2025

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 ('SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011') FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

ADOR MULTIPRODUCTS LIMITED CIN: L85110MH1948PLC310253

Registered Office: Ador House, 5th Floor 6 K Dubash Marg, Fort, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra - 400001 Ph. No.: 022-66239358 E-mail: cs.adormultiproducts@gmail.com, Website: www.adormultiproducts.com Open Offer for the acquisition of 24,85,858 Equity Shares from the Shareholders of Ador Multiproducts Limited by

Mr. Arvinder Singh Pasricha, Mrs. Aman Pasricha Balsara, Ms. Zinnia Pasricha and Thrive Future Habitats Infra Private Limited along with Mr. Tushar Rohinton Balsara

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum to the Detailed Public Statement along with Announcement is being issued by Corporate Professionals Capital Private Limited, for and on behalf of Mr. Arvinder Singh Pasricha ('Acquirer 1"), Mrs. Aman Pasricha Balsara ('Acquirer 2'), Ms. Zinnia Pasricha ('Acquirer 3') And Thrive Future Habitats Infra Private Limited ('Acquirer 4') (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') along with Mr. Tushar Rohinton Balsara (hereinafter referred to as 'Person Acting In Concert' / 'PAC') pursuant to Regulation 18(7) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 in respect of the Takeover Open Offer to acquire shares of Ador Multiproducts Limited (hereinafter referred to as 'AML'/ 'Target Company'). The Detailed Public Statement ('DPS') with respect to the aforementioned offer was published on March 28, 2025. Friday in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Prathakal (Marathi) (Mumbai Edition).

Offer Price of INR 31.41/- (Indian Rupees Thirty One And Four One Paisa Only) per Equity Share of the Target Company payable in cash.

Independent Directors Committee (IDC) recommends that the Offer Price being in compliance with the applicable regulations can be considered as fair and reasonable. The recommendations of IDC were published in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Prathakal (Marathi) (Mumbal Edition) on July 08, 2025, Tuesday.

This is not a competing offer.

Letter of Offer ('LOO') has been dispatched to all the equity shareholders of Target Company whose names appear in its Register of Members on June 27, 2025, Friday, the Identified Date.

The LOO along with the Form of Acceptance cum Acknowledgement is also available on SEBI's website, www.sebi.gov.in. BSE's website, www.bseindia.com, and the website of Manager to the Offer, www.corporateprofessionals.com and shareholders can also apply by downloading such forms from the website. Further, in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance, the application can be made on plain paper along with the following details:

In the case of Equity Shares held in physical form-

The Public Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Open Offer shall approach the Selling Broker. The Selling Broker should place bids on the Designated Stock Exchange platform with relevant details as mentioned on physical share certificate(s). The Selling Broker(s) shall print the TRS generated by the Exchange Bidding System. TRS will contain the details of order submitted like Folio No., Certificate No., Dist. Nos., No. of Equity shares etc. and such equity shareholders should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents as mentioned in para 8.12 is submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be depicted on the exchange platform

In case of Equity Shares held in dematerialized form-

Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure mentioned under para 8.11 of the Letter of Offer

Changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated-

Revised and Original schedule of Activities-

of LOO.

ACTIVITY	ORIGINAL DATE AND DAY	DATE AND DAY
Public Announcement (PA) Date	March 21, 2025 Friday	March 21, 2025 Friday
Detailed Public Statement (DPS) Date	March 28, 2025 Friday	March 28, 2025 Friday
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	April 07, 2025 Monday	April 07, 2025 Monday
Last date for a competing offer	April 24, 2025 Thursday	April 24, 2025 Thursday
Identified Date*	May 06, 2025 Tuesday	June 27, 2025 Friday
Date by which Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	May 14, 2025 Wednesday	July 04, 2025 Friday
Issue Opening PA Date	May 20, 2025 Tuesday	July 10, 2025 Thursday
Last date by which Board of TC shall give its recommendations	May 16, 2025 Friday	July 08, 2025 Tuesday
Date of commencement of tendering period (Offer opening Date)	May 21, 2025 Wednesday	July 11, 2025 Friday
Date of expiry of tendering period (Offer closing Date)	June 03, 2025 Tuesday	July 24, 2025 Thursday
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	June 17, 2025 Tuesday	August 07, 2025 Thursday

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders of the Target Company to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, PAC, persons acting in concert with the Acquirers, existing members of the promoter and promoter group of the Target Company, persons acting in concert with the members of the promoter and promoter group, and the parties to the SPA dated March 21, 2025 including any persons deemed to be acting in concert with such parties) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer.

As directed by SEBI, definitions of "Persons Eligible to Participate in the Offer" and "Public Shareholders" has been consolidated into one single definition of "Public Shareholders" under definition no. 38 in the LOO, as follows-*All the Registered shareholders of the Target Company and unregistered shareholders who own the Equity Shares of the Target Company any time prior to the Closure of Offer including the beneficial owners of the shares, other than the Acquirers, PAC, persons acting in concert with the Acquirers, existing members of the promoter and promoter group of the Target Company, persons acting in concert with the members of the promoter and promoter group, and the parties to the SPA including any persons deemed to be acting in concert with such parties."

As directed by SEBI, clause C.4 and clause 3.2.10 (earlier being clause 3.2.11) of the LOO w.r.t Minimum Public Shareholding requirement as per Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 have been updated.

As directed by SEBI, the definition of 'Persons eligible to participate in the Offer' has been rephrased and consolidated with the definition of 'Public Shareholders,' as mentioned above in point 6 (2). The same definition has been used interchangeably throughout the LOO, wherever applicable, for 'Persons eligible to participate in the Offer'. As directed by SEBI, updated composition of Board of Directors of Target Company is provided under clause 5.9

1 as the Additional Non-Executive Non-Independent Director in the Target Company on May 27, 2025. Further, kindly note that apart from shareholding and directorship in the Target Company he does not hold any other interest in the Target Company, Also, apart from being director in the Target Company, Acquirer 1 is not a director of any other listed company as on date of LOO. Kindly note that the undertakings/confirmations, as mentioned below, from all the Acquirers and PAC have been incorporated under the section 'Background of the Acquirers and PAC', within the respective Acquirers and PAC

As directed by SEBI, the clause 4.1.5 of LOO has been updated to include the details w.r.t appointment of Acquirer

As on the date of PA, Acquirers / PAC are not categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution

or consortium thereof, in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by Reserve Bank of India As on the date of PA, Acquirers / PAC have not been categorized as a fugitive economic offender under Section

12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. Acquirers / PAC do not belong to any group

Acquirers / PAC have confirmed that they will not sell the Equity Shares of the Target Company held by them during the Offer Period in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. As directed by SEBI, clause 7.4 "Statutory and other Approvals" has been rephrased and updated in the LOO as

Shares and Preferential Issue of Warrants and allotment of Equity Shares and Warrants has also been made although

the listing and trading approval from stock exchange is under process and might be received any time even during

"Apart from the shareholder approval and stock exchange approval for the Preferential Issue of Equity Shares and Preferential Issue of Warrants no statutory and other approval(s) are required to complete the acquisition of Preferential Issue of Equity Shares and Preferential Issue of Warrants and acquisition under this Open Offer as on the date of the DLOO, however as on the date of LOO shareholder approval has been received for the Preferential Issue of Equity

the filing of LOO, If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of such acquisitions, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) being obtained. Acquirers along with PAC will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals that are required if refused, in terms of Regulation 23(1)(a) of SEBI (SAST) Regulations. This Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at the later (which are not applicable on the date of LOO) before the completion of the Open Offer.* In this regard, kindly note that the listing approval has been received from the Stock Exchange on July 1, 2025

Kindly note that, the Target Company was not involved in a merger/demerger/spin offs during the last 3 years. As directed by SEBI, this information has been incorporated under clause 5.12.

audited financials as on March 31, 2025, certified by the auditor through the financial certificate dated June 20, 2025. Other material changes from the date of PA-Kindly note that as informed by the Statutory Auditor of the Target Company, brackets were inadvertently omitted in

10. As directed by SEBI, financial information of Target Company in clause 5.10 of LOO has been updated as per latest

certain Profit After Tax (PAT) figures in the Financial Certificate issued by them on March 21, 2025, based on which figures were mentioned in the DLOO, however, based on the new Financial Certificate dated June 20, 2025, figures

2. Kindly note that, necessary changes have been made throughout in LOO, w.r.t acquisition of the control over the Target Company, in terms of Regulation 22 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, whereby, the Acquirers have deposited the entire consideration amounting to INR 7,80,80,800/- in the escrow account, assuming full acceptance under the open offer, in compliance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, also the Acquirer 4 has acquired all the shares from the Sellers as agreed to be transferred under the SPA and the preferential allotment of equity shares has been made in favor of Acquirer 1 and Acquirer 2. Also, the necessary changes in the management have been effected in the Board meeting of the Target Company held on May 27, 2025.

3. Kindly note that, the clause 4.4.9 of the LOO, w.r.t the details of Board of Directors (BOD) of Acquirer 4 has been updated with the new directorship of Mr. Arvinder Singh Pasricha.

Kindly note that, since Acquirers along with PAC wants to acquire substantial shares and control over the Target Company in terms of Regulation 22 of SEBI (SAST) Regulations, 2011, thereby Acquirers have deposited additional funds in the escrow arrangement of INR 5,85,60,600 (Indian Rupees Five Crores Eighty Five Lakh Sixty Thousand Six Hundred only) on May 13, 2025, so that Escrow Account have fund deposit of INR 7,80,80,800/- (Indian Rupees Seven Crores Eighty Lakh Eighty Thousand and Eight Hundred Only) being 100% of the Maximum Consideration in an Escrow Account, as disclosed under clause 6.2.2 of LOO.

Kindly note that, as per the information available on BSE, 48,87,356 (Forty Eight Lakhs Eighty Seven Thousand Three Hundred Fifty Six) Equity Shares representing 51.12% of the Expanded Share Capital of the Target Company, which were allotted to Acquirer 1 and Acquirer 2 pursuant to the preferential allotment of Equity Shares on May 16, 2025, are under lock-in. Apart from this, there are no lock-in shares in the Target Company, as disclosed under clause 7.2 of LOO.

The Open Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/ CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 as amended via SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 and as per further amendment vide SEBI circular numbered SEBI/HO/CFD/DCR-III/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021. Acquirers have appointed Nikunj Stock Brokers Limited ('Buying Broker') for the Open Offer through whom the purchases and settlement of Open Offer shall be made during the Tendering Period. The detailed procedure for tendering of shares is given in Para 8 - "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA. DPS and the LOO.

MANAGER TO THE OFFER

Corporate **Professionals** CORPORATE PROFESSIONALS CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U74899DL2000PTC104508 D-28, South Extn., Part-I, New Delhi - 110049 Contact Person: Mr. Manoj Kumar/ Ms. Ruchika Sharma/ Mr. Nitin Khera Ph.: +91-11-40622228/+91-11-40622248/+91-11-40622218, Fax: +91-11-40622201 Email: manoj@indiacp.com / ruchika.sharma@indiacp.com / nitin@indiacp.com SEBI Regn. No: INM000011435

For and on behalf of Acquirers and PAC

For Thrive Future Habitats Infra Private Limited Tushar Rohinton Arvinder Singh Pasricha Balsara

Arvinder Singh Aman Pasricha Balsara Zinnia Pasricha Pasricha (Acquirer 1) (Acquirer 2) (Acquirer 3) (Acquirer 4)

epaper.financialexpress.com

New Delhi

(PAC)

NBT देश

UGC ने कहा- वट्सऐप ग्रुप पर तंग करना, बार-बार इंट्रो मांगना भी रैगिंग

CCI NG 3.7 Product: NBTDeIhiBS PubDate: 09-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: suman.jha

💷 नई दिल्ली : UGC ने नया सेशन शुरू होने से पहले -एक बार फिर तमाम युनिवर्सिटीज और कॉलेजों को रैगिंग 💙 🖃 फ्री कैपस बनाने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का सख्ती

–से पालन करने के लिए कहा œ_है। नए छात्रों को मानसिक ेरूप से परेशान करने वालों ेंके खिलाफ सख्ती बरतने का चिनेंदेश देते हुए रैगिंग के ≛तरीके पर भी UGC ने


भी इस तरह के वट्सऐप ग्रुपों पर निगाह रखने को -फोकस किया है। कहा गया है। ○ =रैगिंग को लेकर UGC को

युनिवर्सिटीज को

ेहर वर्ष छात्रों की शिकायतें मिलती हैं। अब यूजीसी ने कहा 🗻 🚉 कि कई बार सीनियर छात्र अनीपचारिक वट्सऐप ग्रुप <u>ब</u>बनाकर पीड़ितों के साथ संपर्क करते हैं और उनको -मानसिक रूप से परेशान करते हैं। इस तरह के ग्रप बनाना 🔂 🖃 भी रैगिंग माना जाएगा और एंटी रैगिंग नियमों के आधार पर - कार्रवाई की जाएगी। युनिवर्सिटीज को भी इस तरह के खिलाफ बनाए गए नियमों के मुताबिक ऐक्शन होगा। 🗻 🗄 वट्सऐप ग्रुपों पर निगाह रखने को कहा गया है।

सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना भी रैगिंग के दायरे में आता है

ंयजीसी ने कहा है कि कई बार नए छात्रों की शिकायत -आती है कि सीनियर की ओर से धमकी दो जाती है कि यदि उ - वे उनको बात नहीं मानेंगे तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार का -सामना करना पडेगा। यानी एक तरह से नए छात्रों को



सेशन की शुरुआत से ही डराया-धमकाया जाता है, यह भी रैगिंग का ही एक रूप है। सीनियर छात्रों को यह समझ लेना होगा कि इस तरह की धमकियां देने पर रैगिंग के

बाल कटवाना, मौखिक रूप से अपमान करना भी रैगिंग

कई बार देखा गया है कि छात्रों से कहा जाता है कि वे अपने बाल कटवाकर आएं। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है । बहुत सी शिकायतों में देखा गया है कि वरिष्ठ छात्रों ने पीड़ितों का मौखिक रूप से अपमान भी किया है. जिसके चलते नये छात्र एंग्जाइटी

'एंटी रैगिंग नियम लागू नहीं होने पर रुक सकती है ग्रांट'

UGC ने कहा कि कई बार नए छात्रों को बार-बार अपना परिचय देने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आमतौर पर अपमानजनक या नीचा दिखाने वाले संदर्भों में होता है। एन अन्य परेशान करने वाली प्रवृति यह थी कि सीनियर छात्रों द्वारा पीड़ितों को विशेष वेशभूषा का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बिल्कल गलत है और रैगिंग

UGC ने हाल ही में देश के 89 उच्च शिक्षा संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा है कि संख्त हिदायतों के बावजूद भी एंटी रैगिंग नियमों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? यूनिवर्सिटीज को सभी स्टूडेंट्स से एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग लेनी होगी। UGC ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय समय सीमा के भीतर एंटी रैंगिंग नियमों को लागू नहीं किया गया तो संस्थान की ग्रांट रोकने जैसे कड़े फैसले भी किए जा सकते हैं।

और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। कुछ छात्रों ने UGC को बताया है कि उन्हें लंबे समय तक जागने के लिए मजबूर किया जाता है, इस तरह की हरकतें करके सीनियर अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह सब भी रैगिंग के

पटना के खेमका हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया

 आईएएनएस, पटना : कारोबारी गोपालखेमका की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता मिलने का दाया किया है। आधिकारिक सुत्रों के मुताबिक, हत्याकांड का एक आरोपी विकास उर्फ राजा को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। साथ ही पुलिस ने शुटर उमेश यादव और साजिशकर्ता अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात करीब ढाई बजे पुलिस और एसटीएफ की टीम विकास उर्फ राजा को पकड़ने गई थी। पटना सिटी के मालसलामी इलाके में मृठभेड़ हो गई।

कारोबारी के मंडेर में एनकाउंटर

 पीटीआई, अब्बोहर: कारोबारी संजय वर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल दो लोगों को एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। मंगलवार को पंज पीर टिब्बा इलाके में पुलिस दल घटनास्थल पर हथियार और सबूत जब्त करने गया था। इसी दौरान गोलीबारी हुई । इससे पहले दिन में पुलिस ने राम रतन और जसप्रीत को गिरफ्तार किया, जिन पर तीन शूटरों को कार में भगाने का आरोप है।

रॉयटर्स के 'X' अकाउंट पर केंद्र सरकार बोली- बैन को नहीं कहा

 नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट शनिवार को एकाएक बंद होने का मामला अब भारत सरकार और एक्स के बीच विवाद की वजह बन गया। मामले को लेकर सरकार और 'एक्स के बीच बयानों और प्रतिक्रियाओं का एक दौर शुरू हो गया है। इस मामले पर केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने 3 जुलाई को रॉयटर्स या रॉयटर्स वर्ल्ड समेत किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल को ब्लॉक करने को लेकर कोई ताजा आदेश जारी नहीं किया है, ना ही सरकार का ऐसा कोई मकसद है। जैसे ही रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड 'एक्स' प्लैटफॉर्म पर ब्लॉक होते ही भारत सरकार ने उन्हें अनब्लॉक करने के लिए एक्स को लिखा। सरकार ने लगातार इस संबंध में एक्स के साथ ना सिर्फ इंगेजमेंट जारी रखा, बल्कि 5 जुलाई की देर रात से ही इसके समाधान के लिए 'एक्स' से लगातार कहता रहा, लेकिन 'एक्स' ने प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकियों का विना वजह फायदा उठाया और युआरएल को अनव्लॉक



🛚 सरकार ने कहा– एक्स ने प्रक्रिया का गलत फायदा

🔳 एक्स ने कहा - ऐक्शन के लिए एक घंटे का समय दिया गया।

हालांकि सरकार की ओर से लगातार हर घंटे पर फॉलो करने करे बाद 'एक्स' आखिरकार रॉयटर्स और दूसरे बजे के बाद अनब्लॉक किया। सरकार का दावा है कि एक्स ने उन्हें अनब्लॉक करने में 21 घंटे से भी ज्यादा का समय लिया। इससे पहले सोमवार को ही किया था कि भारत सरकार ने 3 जुलाई और को भारत में 2.355 अकाउंट बंद करने

एक्ट 69 ए के तहत इन्हें रोकने के लिए कहा। इसमें सहयोग ना करना 🗄 🕏 आपराधिक जवाबदेही के घेरे में आता है। एक्स ने बयान में कहा कि आईटी 🗕 🥰 मिनिस्ट्री ने एक घंटे के अंदर इस संबंध 🗄 में एक्शन करने को कहा था, इसके 🤅 तहत इन अकाउंट्स को अगले आदेश 🚟 🎖 तक बंद ही रखने के भी आदेश दिए थे। 🖺 सरकार ने इस मामले पर लोगों का 🗄 😝 गुस्सा देखने के बाद इन अकाउंट्स को 🗄 अनब्लॉक करने को कहा। इसके साथ 🗉 ही एक्स ने ये भी कहा कि ऐसे ब्लॉकिंग 🗕 🛱 आदेशों की वजह से वो भारत में प्रेस 🖹 सेंसरशिप को लेकर वो चिंतित हैं। 'एक्स' ने ये भी कहा है कि क्योंकि वो 🖫 🕏 भारत के काननी दायरे से बंधा है. युआरएल को 6 जुलाई की रात को 9 इसलिए ऐसे इंग्जेक्युटिव आदेशों को 🚉 🚎 चनीती नहीं दे सकता। लेकिन इससे प्रभावित लोगों को कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। बता दें कि = 😽 शनिवार देर रात के बाद इंटरनेट यूजर्स 🗄 'एक्स' ने सोशल अकाउंट पर पोस्ट ने भारत में रॉयटर्स (@Reuters) 🗄

(@ReutersWorld) का एक्स = को कहा। 'एक्स' के मुताबिक इसमें हैंडल खोलने की कोशिश की तो तो 🗕 💢 रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड भी शामिल स्क्रीन पर एक संदेश दिखा, जिस पर लिखा था कि यह अकाउंट भारत में 🗄

ट्रेन की चपेट में आई वैन, 3 छात्रों की मौत

🌄 🚛 भाषा, तमिलनाडु : तमिलनाडु में कडलुर जिले के सेम्मनगुष्पम में मंगलवार की 🚉 सुबह एक स्कूल वैन चलती ट्रेन से टकरा गई। इस दुर्घटना में वैन सवार तीन छात्रों की ुमौत हो गई। दक्षिण रेलवे ने इस दुखद घटना के लिए माफी मांगी है और बताया कि 🗪 =रेलवे फाटक पर तैनात गेटकीपर को निलंबित करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया ्है । दक्षिणी रेलवे का दावा है कि वैन चालक ने देरी से बचने के लिए फाटक खोलने पर 📩 🚉 जोर दिया, जबकि वैन चालक और घायल छात्र ने दावा किया कि फाटक खुला था।

पहचान की अपील



आम जनता को सुचित किया जाता है कि एक पुरुष जिसका नामः नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः लगभग 35-40 साल कदः ४७", लिंगः पुरूष, रंगः गेहुआ, चेहराः अंडाकार् शरीरः पतला, बालः काले पहनावाः काली पेंट शर्ट बरामदगी स्थलः पिलर संख्या पी-63, अशोका पार्क मुख्य मेटो स्टेशन के पास, मुख्य रोहतक रोड, जखीरा नई दिल्ली की ओर मृतक के शव को पहचान के लिए संजय गांधी अस्पताल दिल्ली, की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है।

इस सम्बंध में FIR No. 426/25 U/s 281/106(1) दिनांक: 25.06.2025 पुलिस स्टेशन: पंजाबी बाग, नई दिल्ली, में दर्ज है। यदि इसके बारे में कोई सुराग या जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सचना निम्नलिखित पते पर दें।

DP/8940/DW/2025

DP/8946/WD/2025

पुलिस स्टेशनः पंजाबी बाग, नई दिल्ली फोन: 8750871124, 8619823805

गुमशुदा लड़की की तलाश



सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि यह लड़की (फोटो में प्रदर्शित) जिसका नामः यामिनी गौसाई पुत्रीः श्री गोविंद सिंह गौसाइ, निवासीः मकान संख्या 37, एल–एक्सटेंशन, ओके मॉडल स्कूल के पास, मोहन गार्डन, नई दिल्ली, उम्रः 23 साल, कदः 5 फुट 2 इंच, चेहराः गोल, रंगः सांवला, शरीरः मध्यम्, पहनावाः अज्ञात रंग की टी-शर्ट, लोअर और पैरों में चप्पल पहने हुए, दिनांक

01.07.2025 को सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच अपने घर के क्षेत्र, थाना अन्तर्गत मोहन गार्डन, नई दिल्ली से लापता है। इस संदर्भ में DD No. 130A, dated 04.07.2025 थाना अन्तर्गत मोहन गार्डन, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है।

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस लापता लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अघोहरताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

: cic@cbi.gov.in थाना- मोहन गार्डन, नई दिल्ली वेबसाइट : http://cbi.nic.in फोनः 91-11-25351004, 8750871029 : 011-24368639 दूरभाष : 011-24368638, 24368641

पहचान की अपील



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, लिंगः पुरुष, उम्रः लगभग 35-40 साल, **कदः** 5फीट 5इंच, रंगः सांवला, शरीरः पतला, चेहराः लम्बा, पहचान चिन्हः दायें हाथ पर एक टैटू बना है, पहनावाः सफेद नारंगी रंग की स्ट्रिप वाली टी—शर्ट और नीले रंग की पैट पहनी है। बरामदी स्थलः जो टिकोना पार्क आजाद पुर टर्मिनल, दिल्ली में दिनांक 06.07.2025 को बेहोशी की हालत में पाया गया

जिसे बीजेआरएम अस्पताल, जहाँगीर पुरी, दिल्ली में दखिल कर दिया जहाँ डॉo द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में DD No. 35A, दिनांक 06.07.2025, थानाः आदर्श नगर, दिल्ली में दर्ज है। पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पायी है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहरताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सुचित करने की कृपा करें।

थाना : आदर्श नगर, दिल्ली फोन : 8750870229, 7056528895 DP/8925/NW/2025

लापता की तलाश



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नामः काजल सिंह, पुत्रीः श्री विक्रम सिंह, पताः मकान नं. 10815/5 वाल्मीकी कॉलोनी, 100 क्वार्टर डब्ल्यूईए करोल बाग, दिल्ली, **लिंगः** महिला, **उग्रः** 20 साल, कदः 5'1", रंगः गेहुँआ, शरीरः पतला, बेहरा : लंबोतरा, पहनावाः सफेद रंग का कृती एवं नीले रंग की जींस तथा पैरों में चप्पल पहने है और भूरे रंग का लेडी बैग लिए है, दिनांक 01.07.2025 से थाना क्षेत्र – करोल बाग, दिल्ली से लापता है। इस बाबत DD No. 006A, दिनांक: 03.07.2025, थानाः करोल बाग, दिल्ली में दर्ज

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लापता लडकी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें।

फोनः 011-24368638, 24368641 वेबसाइंटः http://cbi.nic.in इं—मेल: cic@cbi.gov.in

पुलिस स्टेशनः करोल बाग, नई दिल्ली फैक्स: 011-24368639 फोनः 011-28726870, 8750870430 DP/8838/CD/2025

सुप्रीम कोर्ट कलीजियम की सिफारिश के बाद केंद्र ने पेंडिंग रखे नाम, उठे सवाल

Rajesh.Choudhary@timesofindia.com

🔳 नई दिल्ली : हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर सप्रीम कोर्ट कलीजियम की ओर से दो नाम भेजे जाने के वावजूद केंद्र सरकार ने इसे लवित रखा, जिस पर बहस तेज हो गई है। कैपेन फॉर जुडिशल अकाउंटिब्लिटी एंडरिफॉर्म (CJAR) ने मंगलवार को एक बयान जारी कर केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट श्वेतश्री मजूमदार और एडवोकेट राजेश दातार की उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियक्ति को सप्रीम कोर्ट कलीजियम की सिफारिशों के बावजूद पेंडिंग रखने

https://eprocure.gov.in/egrocure/app है ।

की कड़ी निंदा की है। साथ ही सप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह इस मामले को न्यायिक पक्ष (judicial side) पर उठाएं।साथ ही केंद्र सरकार

भारतीय अन्तदेशीय जलमार्गे प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालयः ए-13, शैक्टर-1, नीएश-201301 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0120-2527667, 2543931, फैक्स : 0120-2522969

''अन्य राष्ट्रीय जलमागौँ में परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेत् परियोजना प्रबंधन

परामशीं सेवाओं के लिए परामर्शदालाओं की नियुविल'' हेतु निविदा

अन्य राष्ट्रीय जलमार्गौ में परियोजनाओं के कार्यान्तयन हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श

सेवाओं के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति" हेतु मुख्य तिथियों के अनुसार भावी बोलीदाताओ

से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं : निर्विदा डाउनलोंड करने की तिथि 08.07.2025 है। बोलियाँ

जमा करने की अंतिम तिथि 22.07.2025 को 15:30 बजे है। बोलियों खुलने की तिथि

23.07.2025 को 16:00 बजे है। आईडबन्यूएआई की वेबसाइट www.iwai.nic.in एवं हस्ता/-

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

PARICHHA THERMAL POWER PROJECT PARICHHA JHANSI

E- TENDER NOTICE

E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000007432 "Supply of

MS rod Tie Rod ECO Hanger Pin for OH 6, BMD-1, CTPS, 2x250

MW, PTPP, Parichha." Estimated Cost Rs. 5,50,000.00 EMD

Rs.5,500.00 e-bid Submission dt.: 24.07.2025 up to 04:00 PM.

E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008854 "Supply of

Hydrated Lime for OM of 210 MW /2x250 MW PTPP Parichha.

Submission dt.: 24.07.2025 up to 04:00 PM.

Submission dt.: 21.07.2025 up to 09:00 AM.

Submission dt.: 22.07.2025 up to 12:00 PM.

e-bid Submission dt.: 21.07.2025 up to 09:00 AM.

e-bid Submission dt.: 18.07.2025 up to 05:00 PM.

Submission dt.: 28.07.2025 up to 04:00 PM.

28.07.2025 up to 04:00 PM.

e-bid Submission dt.: 24.07.2025 up to 04:00 PM.

Estimated Cost Rs. 95,000.00 EMD Rs. 1,000.00 e-bid

E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008493 "Supply of

ERW plain pipe and flange of CMRH, BMD-II, CTPS, PTPP,

Parichha.* Estimated Cost Rs. 1,60,000.00 EMD Rs. 2,000.00

E-Tender- N-PAR/B/MMC1/PD01/6000008375 "Supply of

various type of Hose Pipes and assemblies in PTPP, Parichha,

Jhansi (UP) 284305." Estimated Cost Rs. 10,55,800.00 EMD

Rs. 20,000.00 e-bid Submission dt.: 21.07.2025 up to 09:00 AM.

Complete Electrical Arc Flash Suit PPE for 40cal/cm2 and

Safety items in PTPP, Parichha, Jhansi (UP) 284305.

Estimated Cost Rs. 1,77,500.00 EMD Rs. 3,500.00 e-bid

E-Tender- N-PAR/B/MMC1/PD01/6000008757 "Supply of

Electrical Spares of ESP in PTPP, Parichha, Jhansi (UP)

284305." Estimated Cost Rs. 11,28,000.00 EMD Rs. 20,000.00

E-Tender- N-PAR///CMD2/6000008743_00 "Strengthening

of steel columns at coal handling area at PTPP Parichha."

Estimated Cost Rs. 32,76,710.00 EMD Rs. 66,000.00 e-bid

E-Tender- N-PAR/C/OMC4/EMD1/6000008725 00

"Miscellaneous works of Repairing and Fabrication As per

Sample of pipes union etc for Hydrogen Gas Room and painting

work of IP and SP Bus Duct of Generator unit 6 250 MW CTPS

Parichha." Estimated Cost Rs. 3,72,048.00 EMD Rs. 8,000.00

E-Tender- T-01/SE(HQ)/PTPP/FFSTD/2025-26

"Deployment of 01 No. school bus for conveyance of school

children and 01 no. Mini bus Conveyance of Shift duty staff.

Estimated Cost Rs. 29,94,223.00 EMD Rs. 58,000.00 e-bid

E-Tender- N-PAR/B/MMC1/SD01/6000008965 "Material

loading and unloading work and Technical Maintenance of

storage sheds at Parichha Thermal Power Plant." Estimated

Cost Rs. 16,71,700.00 EMD Rs.34,000.00 e-bid Submission dt.:

E-Tender- N-PAR/C/OMC5/CHD2/6000008923 "Shifting of

manually unloaded coal in MUH area and lying between railway

track of inhaul of WT 2 and 3 to WT hopper/NUH in PTPP

Parichha." Estimated Cost Rs. 11,90,000.00 EMD Rs.24,000.00

12. E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008820 "Supply of

VICTAULIC COUPLING and LOWER JRNL HSG for BMD-II

BTPS, PTPP, Parichha." Estimated Cost Rs. 21,41,000.00 EMD

Rs.22,000.00 e-bid Submission dt.: 29.07.2025 up to 04:00 PM.

13. E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008905 "Supply of

40 MT FERRIC ALUM FOR Water Treatment Plant at PTPP

Colony, Parichha." Estimated Cost Rs. 3,50,000.00 EMD

Rs.3,500.00 e-bid Submission dt.: 17.07.2025 up to 04:00 PM.

NOTE:- Total Quality of work, tender specification and other

terms & conditions is as per tender document available on the

e-tender portal our website www.etender.up.nic.in &

uprvunl.org. Bidders are advised to visit the website regularly

"Save Electricity for Nation"

13

15

e-bid Submission dt.: 23.07.2025 up to 02:00 PM.

for updated information from time to time.

11

संव 178/टीवएसवबीव-प्रव/पीटीपीपी/

10

E-Tender- N-PAR/B/MMC1/PD01/6000008687 "Supply of

क्यों मंजुरी नहीं दी गई। हाई कोर्ट जस्टिस बनने की अपनी है, न ही सुप्रीम कोर्ट के 1994 और सहमति वापस ले ली थी, क्योंकि उनके 199 के निर्णयों के अनुरूप है।

से स्पष्टीकरण मांगें कि दोनों

नामों को अन्य सिफारिशों से अलग कर लंबित रखा गया था. जबकि अन्य नामों को आगे वढा दिया गया । बताया जा रहा है कि ऐसा विना किसी कारण के किया गया।CJAR के बयान में कहा गया है, 'हम केंद्र सरकार की इस असंवैधानिक और अवैध कार्रवाई की निंदा करते हैं. जिसमें मजूमदार और दातार के नामों को अन्य नामों से अलग कर दिया गया। हम दोहराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ताओं की नियक्ति को समय पर कलीजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों में से कुछ को चुनकर बाकी हाल ही में इन दोनों अधिवक्ताओं ने को खारिज करना नतो विधि में स्वीकृत

इंजन में फंसा शख्स

 एपी, रोम: इटली के वर्गामो शहर के एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक शख्स के रनवे पर दौड़ने और विमान के इंजन में फंस जाने के कारण सभी उड़ानें निलॉबेत करनी पड़ीं। स्थानीय मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई। खबर के मुताबिक, बर्गामो मिलान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि बर्गामो-ओरियो अल सेरियो एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें स्थानीय समयानुसार सुबह 10.20 बजे टैक्सीवे पर आई एक समस्या के कारण निलीवेत कर दी गई। इस मामले की जांच की जा रही है। 'कोरिएरे डेला सेरा' अखबार की खबर में एयरपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि उड़ान भरने के समय कोई व्यक्ति रनवे पर आ गया और इंजन में फंस गया।

www.greenlamindustries.com

इटली में विमान के



कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों की सीखने की क्षमता को जांचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि मैथ्स को लेकर काफी सुधार की जरूरत है। कोविड के बाद छात्रों के सीखने की क्षमता में काफी कमी देखने को मिली है। कोविड से पहले वाले स्थिति दूर नजर आ रही है। रिपोर्ट बताती है इन तीनों क्लासेज में

कहीं ज्यादा औसत स्कोर है, जबकि मैथ्स में स्कोर कम रहा है। 9वीं क्लास में करीब 63 प्रतिशत स्टूडेंट्स को सरल पैटर्न को समझने में भी मुश्किलें हुई, इसके अलावा अंशों और पूर्णांकों जैसे बनियादी न्यमैरिकल्स (संख्यात्मक) सेटों को समझने में नाकाम रहते हैं । छठी क्लास में भी मैथ्स विषय को लेकर लर्निंग गैप साफ नजर आ रहा है। इस क्लास में आधे से ज्यादा छात्रों को पूर्ण संख्याओं की तुलना करने या बड़ी संख्याओं को पहने में दिक्कतें हुई हैं। छठी क्लास में केवल 37 प्रतिशत छात्र ही मैध्स में बड़ी संख्याओं को हल करने में कामयाब रहे हैं । यह सर्वे देश की शिक्षा प्रणाली में सीखने की कमी को सामने ला रहा है। प्राइम नंबर्स. पर्सेटेज अप्लाई करना जैसे प्रश्नों को लेकर भी छात्रों को मुश्किलें हुई हैं। कक्षा

6 और 9 को मिलाकर देखें तो पहने वाले करीब आधे बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तकों में 🚟 🖔 मुख्य विचारों को ठीक से नहं समझ पाते

कैसे हुआ यह सर्वे परखनेयह सर्वेकक्षा ३.६ और १ के छात्रों

के बीच किया, जिसमें 21.15 लाख छात्रों की भागीदारी रही। देश के 781 जिले के 74229 युनीक स्कूलों में हुए इस सर्वे में भाषा, गणित, साइंस, सोशल साइंस जैसे विषयों में सीखने की क्षमता को देखा गया। कक्षा 3 में सर्वे के नतीजों को देखें तो भाषा में 64 प्रतिशत और मैथ्स में 60 प्रतिशत औसत स्कोर रहा यानी इतने प्रतिशत बच्चे इन दोनों विषयों को ठीक से समझ पा रहे हैं। वहीं बड़ी कक्षाओं को देखें तो साइंस और सोशल साइंस का हाल भी इससे बेहतर नहीं है। कक्षा 9 में साइंस में करीब 60 प्रतिशत छात्र न्यूनतम योग्यता

मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं।

WEST CENTRAL RAILWAY

खुली ई-निविदा सूचना, दिनांक 07.07.2025

वरिष्ठ मंडल अभियंता/सम./पश्चिम मध्य रेल भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी

ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 15.30 बजे तक ई-टेन्डर

आमंत्रित करते हैं। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी वेबसाईट <u>http://</u>

www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है , एवं मण्डल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। इस टेन्डर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं हैं। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। निविदाकारों से निवेदन हैं, कि वह जीएसटी कानून 2017 के प्रावधानों के अनुसार अपने दर तथा निविदाएं प्रस्तुत करें। S.N.-1, NIT No.: 25-26-W-07-39, Date: 26.06.25, Name of work including Location: गुना-ग्वालियर खंड-डीईएन/पश्चिम/भोपाल खंड के अधीन पनिहार-700 मी. मोहना-700मी. रेहंट-300 मी., कोलारस-700 मी. बदरवास-700 मी. मियाणा-300मी. कुल 3400 मी. पर बाउंड़ीवॉल का प्रावधान, Published cost of tender ₹: ₹ 2,11,46,176.48, Earnest Money: ₹ 2,55,700, Completion period: 12 माह, Last date for submitting tender: 18.07.25, S.N.-2, NIT No.: 25-26-S-09-40, Date: 30.06.25, Name of work including Location: टीडब्लुआर 24.5 किमी. सीनियर डीईएन/साउथ/भोपाल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। (बीना-इटारसी तीसरी लाइन किमी. 746/0 से 762/500 = 16.5 किमी.और खंडवा-इटारसी (जेबीपी लाइन) अप-742/0 से 746/0 और डाउन, 742/0 से 746/0 = 08 किमी.), Published cost of tender ₹: ₹5,62,02,282.55, Earnest Money: ₹ 4,31,000, Completion period:16 माह, Last date for submitting tender: 23.07.25, S.N.-3, NIT No.: 25-26-C-13-41, Date: 30.06.25, Name of work including Location: भाग ए)भोपाल (बीपीएल)-भोपाल स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1,2 और 3 पर बैलास्टलेस टुँक की प्लैनिंग डिजाइन हाइंग और निर्माण। भाग बी) संतहिरदाराम नगर (एसएचआरएन) सीनियर डीईएन/सेंट्रल/भोपाल सेक्शन के तहत संतहिरदाराम नगर स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1,2 और 3 पर बैलास्टलेस ट्रैक की प्लैमिंग डिजाइन डाइंग और निर्माण, Published cost of tender रैं: ₹35,17,82,226.00, Earnest Money: ₹ 19,08,900, Completion period: 24 माह, Last date for submitting tender 24.07.25, S.N.-4, NIT No.: 25-26-C-14-42, Date: 30.06.25, Name of work including Location: भाम ए रानीकमलापति (आरकेएमपी)- रानीकमलापति स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1,2 और 3 पर बैलास्टलेस टैक की प्लैनिंग डिजाइन ड्राइंग और निर्माण। भाग बी) नर्मदापुरम (एनडीपीएम) नर्मदापुरम स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पर बैलास्टलेस ट्रॅंक की प्लैनिंग डिजाइन हाइंग और निर्माण। भाग सी) विदिशा (बीएचएस) सीनियर हीईएन/सेंट्रल/भोपाल सेक्शन के तहत विदिशा स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पर बैलास्टलेस टुँक की प्लैनिंग डिजाइन ड्रांइग और निर्माण। Published cost of tender ₹: ₹41,54,53,806.46, Earnest Money: ₹ 22,27,300, Completion period: 24 माह, Last date for submitting tender 24.07.25, S.N.-5, NIT No.: 25-26-S-10-43, Date: 30.06.25, Name of work including Location: ए)हरदा-हरदा स्टेशन पर बैलास्टलेंस ट्रैक की प्लैनिंग डिजाइन ड्राइंग और निर्माण। बी) इटारसी-सीनियर डीईएन (दक्षिण) भोपाल क्षेत्राधिकार के तहत इटारसी स्टेशन पर बैलास्टलेस ट्रैंक की प्लैनिंग डिजाइन ड्राइंग और निर्माण, Published cost of tender ₹: ₹17,01,96,499.75, Earnest Money: ₹10,01,000, Completion period: 24 माह, Last date for submitting tender: 24.07.25, S.N.-6, NIT No.: 25-26-N-07-44, Date: 01.07.25, Name of work Including Location: बीना बीना स्टेशन पर बैलास्टलेस टैक की प्लैनिंग डिजाइन डाइंग और निर्माण, Published cost of tender र: ₹17,67,90,190.82, Earnest Money: ₹10,34,000, Completion period: 18 माह, Last date for submitting tender: 24.07.25, S.N.-7, NIT No.: 25-26-HQ-07-45, Date:

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वंजीकृत एवं कार्योरट कार्यालय : 203, द्वितीय तल, बेस्ट विंग, क्टबंबार्क 1, व्यतेसिटी, आईबीआई एवरपोर्ट, हास्पिटलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037, भारत पटेर में.: +91–11-4279-1399, CIN: L21016DL2013PLC386045 stor.relations@greenlam.com; चेरमाइर: www.greenlamindus

शेयरधारकों को सूचना ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 12वीं एजीएम के सम्बन्ध में सुचना

जो कि वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजअल माध्यम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक (" एजीएम") गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को 03:30 P.M. IST को नियत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यमों ("ओएबीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम, 2013") और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशंस, 2015 सपठित सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें लेटेस्ट 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा कॉपेरिट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों और भारतीय विनिमय बोर्ड ("सेबी") (जिसे आगे सामृहिक रूप से "परिपत्र " पड़ा जाए) तथा निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने हेतु अन्य लागू परिपत्रों जैसा कि 12वीं एजीएम की सूचना में अंकित हैं, के अनुपालन में आयोजित की जाएगी

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 12वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 हेत् वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी (जब तक कि सदस्यों द्वारा हार्ड कॉपी के लिए विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए), जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। 12वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.greenlamindustries.com, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आर एंड टी एजेंट") यानी एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की वेबसाइट www.in.mpms.mufg.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटॉ पर क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध

डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकत/अपडेट करें। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर कंपनी के आरएंडटी एजेंट, एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058; टेलीफोन : +91-11-49411000; फैक्स : +91-11-41410591; ईमेल: delhi@in.mpms.mulg.com, वेबसाइट: www.in.mpms.mulg.com को उपलब्ध कराएं।

शेयरधारकों को 12वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैठक के दौरान तथा दूर से भी अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइन्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका 12वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

बैंक खातों में सीधे लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन, संपर्क विवरण, पिन के साथ डाक पता, बैंक खाता नाम और शाखा, बैंक खाता संख्या और खाते का प्रकार के साथ-साथ अन्य कोर बैंकिंग विवरण जैसे कि एमआईसीआर (मैंग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन), आईएफएससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड) आदि को नमूना हस्ताक्षर, नामांकन के विकल्प के साथ जल्द से जल्द अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (DPs) के पास प्रस्तुत करें अथवा यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो आरएंडटी एजेंट के पास प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता या अद्यतन न होने की स्थिति में, कंपनी लाभांश वारंट/चेक के माध्यम से ऐसे सदस्य को लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करेगी, जैसा

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड : सम्बन्धित सेबी परिपत्रों के अनुसार, 01 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से तभी किया जाएगा जब फोलियों केवाईसी के अनुरूप हो। सभी विवरणों जैसे कि पिनकोड के साथ प्रा पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर, फोलियो में सभी धारकों के आधार से जुड़ा वैध स्थायी खाता संख्या ('पैन'), आदि के पंजीकरण पर फोलियों को केवाईसी के अनुरूप माना जाएगा, ।

कते ग्रीनलैम इंडस्टीज लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली दिनांक : जुलाई 08, 2025

कम्पनी सचिव एवं वाइस प्रेसीडेन्ट-लीगल

18 19 21 22

17

दिनांक : 08.07.2025

भाषा (लैंग्वेज) में मैथ्स की तलना में

05.07.25, Name of work including Location: भोपाल मंडल-भाग (ए)-केद्रीकृत स्टोर भवन (एसएसई//सिग्नल/स्टोर/बीपीएल) के निर्माण के साथ-साथ एसएसई/ सिग्नल/ मेंटेनेंस/ भोपाल कार्यालयों के निर्माण द्वारा एस एंड टी बुनियादी द्वांचे का आधुनिकीकरण (i) आरसीसी राफ्ट फाउंडेशन के साथ भूतल, प्रथम तल के एस एंड टी उपकरण कक्ष का निर्माण सैनिटरी स्थापना के साथ आंतरिक जल आपूर्ति। (ii) एसएंड टी स्टोर भवन और कार्यालयों के लिए बाउंड़ी बॉल। भाग (बी)- फर्श और 14 स्टोरेज शेल्फ के साथ औद्योगिक शेंड का निर्माण। भाग

0

(सी)-आरकेप्टमपी जोनल ट्रैक मशीन डिपों में ट्रैक मशीन भवन और शेड़ की रिपेयर और मेंटेनेंस। प्रकाश कुमार विसवाल भाग (डी)- आरएमएस भोपाल पीएफ क्रमांक-१ के कार्य की रिपेयर और मेंटेनेस का प्रस्ताव। Published cost of tender 7: 78,15,98,298.28, Earnest Money: ₹5,58,000, Completion period: 12 माह, Last date for submitting tender: 28.07.25 मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल कोरोना को भगाना है, मास्क एवं वैक्सीन लगाना है। 31

इलॉन मस्क के सोशल मीडिया कानुनी मांग की वजह से रोका गया है। कक्षा 3, 6 और 9 के स्टूडेंट्स मैथ्स में कमज़ोर

भाषा में बेहतरः सर्वे रिपोर्ट

UGC ने कहा- वट्सऐप ग्रुप पर तंग करना, बार-बार इंट्रो मांगना भी रैगिंग

नए छात्रों को सेशन की शरुआत से ही इराया-धमकाया

जाता है, यह भी रैगिंग का ही एक रूप है। सीनियर छात्रों

को यह समझ लेना होगा कि इस तरह की धमकियां देने

बाल कटवाना, मौखिक रूप से

अपमान करना भी रैगिंग

💷 नई दिल्ली : UGC ने नया संशन शुरू होने से पहले एक बार फिर तमाम युनिवर्सिटीज और कॉलेजों को रैगिंग 💙 🖃 फ्री कैपस बनाने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का सख्ती

–से पालन करने के लिए कहा œ—्है। नए छात्रों को मानसिक् ेरूप से परेशान करने वालों ें के खिलाफ सख्ती वरतने का चिन्देश देते हुए रैगिंग के ≣तरीके पर भी UGC ने

भी इस तरह के वट्सऐप ग्रुपों पर निगाह रखने को -फोकस किया है। कहा गया है। ○ =रैगिंग को लेकर UGC को

युनिवर्सिटीज को

ेंहर वर्ष छात्रों की शिकायतें मिलती हैं। अब युजीसी ने 🗻 कहा है कि कई बार सीनियर छात्र अनीपचारिक वट्सऐप ुग्रुप बनाकर पीड़ितों के साथ संपर्क करते हैं और उनको -मानसिक रूप से परेशान करते हैं। इस तरह के ग्रूप 🗸 इबनाना भी रैगिंग माना जाएगा और एंटी रैगिंग नियमों के -डआधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटीज को भी इस पर रैगिंग के ख़िलाफ बनाए गए नियमों के मुताबिक 🗻 🛅 तरह के वदसऐप ग्रुपों पर निगाह रखने को कहा गया है। 🛚 ऐक्शन होगा।

सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना भी रैगिंग के दायरे में आता है

ंयुजीसी ने कहा है कि कई बार नए छात्रों की शिकायत कई बार छात्रों से कहा जाता है कि वे अपने बाल आती है कि सीनियर की ओर से धमकी दी जाती है कि कटवाएं। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव

'एंटी रैगिंग नियम लागू नहीं होने पर रुक सकती है ग्रांट'

UGC ने कहा कि कई बार नए छात्रों को बार-बार अपना परिचय देने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आमतौर पर अपमानजनक या नीचा दिखाने वाले संदर्भों में होता है। एन अन्य परेशान करने वाली प्रवृति यह थी कि सीनियर छात्रों द्वारा पीड़ितों को विशेष वेशभूषा का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है और रैगिंग

UGC ने हाल ही में देश के 89 उच्च शिक्षा संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा है कि संख्त हिदायतों के बावजूद भी एंटी रैगिंग नियमों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? यूनिवर्सिटीज को सभी स्टूडेंट्स से एटी-रैगिंग अंडरटेकिंग लेनी होगी। UGC ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय समय सीमा के भीतर एटी रैगिंग नियमों को लाग नहीं किया गया तो संस्थान की ग्रांट रोकने जैसे कड़े फैसले भी किए जा सकते हैं।

हैं, जिसके चलते नये छात्र एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। कुछ छात्रों ने UGC को बताया है कि उन्हें लंबे समय तक जागने के लिए मजबर किया 🕠 🖫 यदि वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें सामाजिक 🛮 का सामना करना पड़ता है। देखा गया है कि वरिष्ठ 🗔 जाता है. इस तरह की हरकतें करके सीनियर अपना -बिहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। यानी एक तरह से 🛮 छात्रों ने पीड़ितों का मौखिक रूप से अपमान भी किया 🗦 प्रभावदिखाते हैं। यह सब भी रैगिंग के दायरे में आता है।

30

पटना के खेमका हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया

🔳 आईएएनएस, पटना : कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, हत्याकांड का एक आरोपी विकास उर्फ राजा को मृठभेड़ में मार गिराया गया है। साथ ही पुलिस ने शुटर उमेश यादव और साजिशकर्ता अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है।

कारोबारी के मर्डर में एनकाउंटर

पीटीआई, अबोहर: कारोबारी संजय वर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल दो लोगों को एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। यह मृठभेड मंगलवार को हुई।



प्रिय सदस्य(यों),

www.greenlamindustries.com

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत एवं कार्योरट कार्यालय : 203, द्वितीय तल, बेस्ट विंग,वर्ल्यमर्क 1, एपऐसिटी, भाईबीआई एवरपेर्ट, हास्विटिनटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिस्ती-110037, धारत कोन ने: +91-11-4279-1399, CIN: L21016DL2013PLC386D45

शेयरधारकों को सुचना

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 12वीं एजीएम के सम्बन्ध में सूचना जो कि वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक (* एजीएम*) गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को 03:30 P.M. IST को नियत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("बीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएबीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम, 2013") और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशंस, 2015 सपिटत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्नों, जिनमें लेटेस्ट 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा कॉपॅरिट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों और भारतीय विनिमय बोर्ड ("सेबी") (जिसे आगे सामृहिक रूप से "परिपत्र " पढ़ा जाए) तथा निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने हेतु अन्य लागू परिपत्रों जैसा कि 12वीं

एजीएम की सूचना में अंकित हैं, के अनुपालन में आयोजित की जाएगी ।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 12वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024 25 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी (जब तक कि सदस्यों द्वारा हार्ड कॉपी के लिए विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए), जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। 12वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.greenlamindustries.com, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आर एंड टी एजेंट") यानी एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की वेबसाइट <u>www.in.mpms.mufg.com</u> और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध

डीमैटरियलाइन्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अपडेट करें। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर कंपनी के आरएंडटी एजेंट, एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058; टेलीफोन : +91-11-49411000; फैक्स : +91-11-41410591; ईमेल: delhi@in.mpms.mufg.com, वेबसाइट: www.in.mpms.mufg.com को उपलब्ध कराएं।

शेयरधारकों को 12वीं एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैठक के दौरान तथा दूर से भी अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइन्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका 12वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

बैंक खातों में सीधे लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन, संपर्क विवरण, पिन के साथ डाक पता, बैंक खाता नाम और शाखा, बैंक खाता संख्या और खाते का प्रकार के साथ-साथ अन्य कोर बैंकिंग विवरण जैसे कि एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉन्निशन), आईएफएससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड) आदि को नम्ना हस्ताक्षर, नामांकन के विकल्प के साथ जल्द से जल्द अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (DPs) के पास प्रस्तुत करें अथवा यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो आरएंडटी एजेंट के पास प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता या अद्यतन न होने की स्थिति में, कंपनी लाभांश वारंट/चेक के माध्यम से ऐसे सदस्य को लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करेगी, जैसा

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड : सम्बन्धित सेवी परिपत्रों के अनुसार, 01 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में शेयर

रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से तभी किया जाएगा जब फोलियो केवाईसी के अनुरूप हो। सभी विवरणों जैसे कि पिनकोड के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर, फ़ोलियों में सभी धारकों के आधार से बुड़ा वैध स्थायी खाता संख्या ('पैन'), आदि के पंजीकरण पर फोलियो को केवाईसी के अनुरूप माना जाएगा,

Mikasa Mikasa Mikasa Mikasa Mikasa Mikasa

कृते ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : जुलाई 08, 2025 प्रकाश कुमार विसवाल कम्पनी सचिव एवं वाइस प्रेसीडेन्ट-लीगल



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण Telecom Regulatory Authority of India World Trade Centre, Tower - F,



Nauroji Nagar New Delhi - 110029 रिक्ति परिपत्र संख्याः वाय-01/2025-26 सूचना

विषयः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली में अनुबंध के आधार पर योग प्रशिक्षक की नियुक्ति करने के संबंध में।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, एक योग्य और अनुभवी योग प्रशिक्षक की अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सेवाएं लेने का इच्छुक है। अनुबंधित योग प्रशिक्षक को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के टावर -एफ, एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में सप्ताह में पाँच दिन, रोजाना आधे दिन के लिए अपनी सेवाएं देनी आवश्यक होंगी।

2. नियुक्ति हेतु विस्तृत नियम और शर्ते, योग्यता तथा अनुभव भादविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई, 2025 है।

CBC 06202/12/0020/2526

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD. PARICHHA THERMAL POWER PROJECT PARICHHA JHANSI

E- TENDER NOTICE

E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000007432 "Supply of MS rod Tie Rod ECO Hanger Pin for OH 6, BMD-1, CTPS, 2x250 MW, PTPP, Parichha." Estimated Cost Rs. 5,50,000.00 EMD Rs.5,500.00 e-bid Submission dt.: 24.07.2025 up to 04:00 PM.

E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008854 "Supply of Hydrated Lime for OM of 210 MW /2x250 MW PTPP Parichha. Estimated Cost Rs. 95,000.00 EMD Rs. 1,000.00 e-bid Submission dt.: 24.07.2025 up to 04:00 PM. E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008493 "Supply of

ERW plain pipe and flange of CMRH, BMD-II, CTPS, PTPP, Parichha." Estimated Cost Rs. 1,60,000.00 EMD Rs. 2,000.00 e-bid Submission dt.: 24.07.2025 up to 04:00 PM. E-Tender- N-PAR/B/MMC1/PD01/6000008375 "Supply of various type of Hose Pipes and assemblies in PTPP, Parichha,

Jhansi (UP) 284305." Estimated Cost Rs. 10,55,800.00 EMD Rs. 20,000.00 e-bid Submission dt.: 21.07.2025 up to 09:00 AM. E-Tender- N-PAR/B/MMC1/PD01/6000008687 "Supply of Complete Electrical Arc Flash Suit PPE for 40cal/cm2 and Safety items in PTPP, Parichha, Jhansi (UP) 284305.

Estimated Cost Rs. 1,77,500.00 EMD Rs. 3,500.00 e-bid Submission dt.: 21.07.2025 up to 09:00 AM. E-Tender- N-PAR/B/MMC1/PD01/6000008757 "Supply of

Electrical Spares of ESP in PTPP, Parichha, Jhansi (UP) 284305." Estimated Cost Rs. 11,28,000.00 EMD Rs. 20,000.00 e-bid Submission dt.: 21.07.2025 up to 09:00 AM. E-Tender- N-PAR///CMD2/6000008743 00 *Strengthening

of steel columns at coal handling area at PTPP Parichha. Estimated Cost Rs. 32,76,710.00 EMD Rs. 66,000.00 e-bid Submission dt.: 22.07.2025 up to 12:00 PM. E-Tender- N-PAR/C/OMC4/EMD1/6000008725_00

"Miscellaneous works of Repairing and Fabrication As per Sample of pipes union etc for Hydrogen Gas Room and painting work of IP and SP Bus Duct of Generator unit 6 250 MW CTPS Parichha." Estimated Cost Rs. 3,72,048.00 EMD Rs. 8,000.00 e-bid Submission dt.: 18.07.2025 up to 05:00 PM.

E-Tender- T-01/SE(HQ)/PTPP/FFSTD/2025-26 "Deployment of 01 No. school bus for conveyance of school children and 01 no. Mini bus Conveyance of Shift duty staff." Estimated Cost Rs. 29,94,223.00 EMD Rs. 58,000.00 e-bid Submission dt.: 28.07.2025 up to 04:00 PM. E-Tender- N-PAR/B/MMC1/SD01/6000008965 "Material

loading and unloading work and Technical Maintenance of storage sheds at Parichha Thermal Power Plant." Estimated Cost Rs. 16,71,700.00 EMD Rs.34,000.00 e-bid Submission dt.: 28.07.2025 up to 04:00 PM. 11. E-Tender- N-PAR/C/OMC5/CHD2/6000008923 "Shifting of

manually unloaded coal in MUH area and lying between railway track of inhaul of WT 2 and 3 to WT hopper/NUH in PTPP Parichha." Estimated Cost Rs. 11,90,000.00 EMD Rs.24,000.00 e-bid Submission dt.: 23.07.2025 up to 02:00 PM.

12. E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008820 "Supply of VICTAULIC COUPLING and LOWER JRNL HSG for BMD-II BTPS, PTPP, Parichha." Estimated Cost Rs. 21,41,000.00 EMD Rs.22,000.00 e-bid Submission dt.: 29.07.2025 up to 04:00 PM.

13. E-Tender- S-PAR/C/MMC2/PD01/6000008905 "Supply of 40 MT FERRIC ALUM FOR Water Treatment Plant at PTPP Colony, Parichha." Estimated Cost Rs. 3,50,000.00 EMD Rs.3,500.00 e-bid Submission dt.: 17.07.2025 up to 04:00 PM. NOTE:- Total Quality of work, tender specification and other terms & conditions is as per tender document available on the e-tender portal our website www.etender.up.nic.in & uprvunl.org. Bidders are advised to visit the website regularly

"Save Electricity for Nation"

for updated information from time to time. सं0 178 / टी०एस०बी०-प्र0 / पीटीपीपी /

दिनाक: 08.07.2025

बागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं पर गिरी ∞ दीवार, एक की मौत

🗻 🗐 भाषा, मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के Ξछतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के पास <u> इमंगलवार तड़के एक होमस्टे की दीवार</u> 🎖 — गिरने सेएक महिला की मौत हो गई और 11 <u>ं</u>अन्य लोग घायल हो गए। सोमवार की रात हुई भारी बारिश के कारण गढ़ा गांव में यह 🗠 🗄 घटना हुई। मृतका अनीता देवी (40) यूपी =के मिर्जापुर की रहने वाली थी। घायलों में से 🎖 __तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि सबह पांच से छह बजे के बीच दीवार गिरी 🎖 🗃 जिससे 12 लोग घायल हो गए। उन्हें तुरंत ∃अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक =महिला की मीत हो गई। घीवार की चपेट में 🧏 आए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर =और शाहजहांपर के थे।

స్ట్ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बागेश्वर धाम आए श्रद्धालु होमस्टे के एक हॉल में सो -रहे थे, अचानक भारी बारिश के कारण 🖒 🖫 दीवार गिर गई। अनीता देवी की बेटी ऑशका ने बताया कि घटना के बाद कई **ंलोग उस कमरे की दीवार के नीचे फंस गए** उजहां वे सो रहे थे। घटना में घायल गुलाब ने <u>-बताया कि वह कोलकाता से हैं और</u> 🎖 🚤 बागेश्वर धाम में महंत से आशीर्वाद लेने

टेन की चपेट में आई ద్ద वैन, 3 छात्रों की मौत

📲 भाषा, तमिलनाडु : तमिलनाडु में ω_कडलूर जिले के सेम्मनगुष्यम में मंगलवार ेंकी सुबह एक स्कूल वैन चलती ट्रेन से ेटकरा गई। इस दुर्घटना में वैन सवार तीन 🎖 🖃 छात्रों की मीत हो गई। दक्षिण रेलवे ने इस 🚉 दखद घटना के लिए माफी मांगी है और बताया कि रेलवे फाटक पर तैनात -इंगेटकीपर को निलॉबित करते हुए उसे चिंगरफ्तार कर लिया गया है। दुर्घटना के अत्यासमय वैन में चार छात्र और चालक मौजूद हैथे।दक्षिणी रेलवे का दावा है कि फाटक बंद था और वैन चालक ने देरी से बचने के लिए ंफाटक खोलने पर जोर दिया, जबकि वैन ≟चालक और घायलों में एक छात्र ने दावा

ेकिया कि फाटक खुला हुआ था।

Bhupender.Sharma @timesofindia.com

विकक्षा ३, ६ और ९ के छात्रों की सीखने

=स्तर पर सर्वेक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट ♣_-्बताती है कि मैथ्स को लेकर काफी

-सुधार की जरूरत है। कोविड के बाद

इंडाओं के सीखने की क्षमता में काफी

रिपोर्ट बताती है इन तीनों क्लासेज में

🗘 🖶 कमी देखने को मिली है। कोविड से

ज उपापा (लैंग्वेज) में मैथ्स की तुलना में

क्री मैथ्स में स्कोर कम रहा है 19वीं क्लास

इकहीं ज्यादा औसत स्कोर है, जबकि

∃में करीब 63 प्रतिशत स्टुडेंट्स को

्रेनाकाम रहते हैं। छठी क्लास में भी

🗝 नजर आ रहा है। इस क्लास में आधे से

तुलना करने या बड़ी संख्याओं को

कामयाब रहे हैं। यह सर्वे देश की शिक्षा

👇 🖃 नई दिल्ली : NCERT के संगठन परख (राष्ट्रीय मुल्यांकन केंद्र) ने

🌣 ःकी क्षमता को जांचने के लिए राष्ट्रीय

कक्षा 3, 6 और 9 के

स्टूडेंट्स मैथ्स में कमज़ोर,

सरल पैटर्न को समझने में भी मुश्किलें छात्रों के बीच किया, जिसमें 21.15 ेंहुई, इसके अलावा अंशों और पूर्णाकों लाख छात्रों की भागीदारी रही। देश के

🖺 मैथ्स विषय को लेकर लिनेंग गैप साफ 🛮 क्षमता को देखा गया। कक्षा 3 में सर्वे के

<u>ज्यादा छात्रों को पूर्ण संख्याओं की और मैथ्स में 60 प्रतिशत औसत स्कोर</u>

्पड़ने में दिक्कतें हुई हैं। छठी क्लास में विषयों को ठीक से समझ पा रहे हैं। वहीं

ेकेवल 37 प्रतिशत छात्र ही मैथ्स में बड़ी कक्षाओं को देखें तो साइंस और

प्रणाली में सीखने की कमी को सामने अतिशत छात्र न्यूनतम योग्यता मानदंडों

ज=वड़ी संख्याओं को हल करने में सोशल साइंस का हाल भी इससे बेहतर

🎖 — ला रहा है। प्राइम नंबसं, पर्सेटज को पूरा करने में नाकाम रहे हैं।

बुनियादी न्यूमैरिकल्स 781 जिले के 74229 यूनीक स्कूलों में

अप्लाई करना जैसे प्रश्नों को लेकर भी

छात्रों को मश्किलें हुई हैं। कक्षा 6 और

9 को मिलाकर देखें तो पढ़ने वाले

करीब आधे बच्चे अपनी पाठयपुरतकों

में मुख्य विचारों को ठीक से नह समझ

कैसे हुआ यह सर्वे

परख ने यह सर्वे कक्षा 3, 6 और 9 के

सोशल साइंस जैसे विषयों में सीखने की

नतीजों को देखें तो भाषा में 64 प्रतिशत

रहा यानी इतने प्रतिशत बच्चे इन दोनों

नहीं है। कक्षा 9 में साइंस में करीब 60

भाषा में बेहतरः सर्वे रिपोर्ट

+91 8447744041/42/43/44/45/47 Toll Free: 1800-309-5855 MISSIONS OPEN - 2025 Exclusive Collaborations of I.T.S with IIMs & IITs for Residential Immersion Programmes Mandi Mandi IIM Jammu **IIM Ranchi IIM Udaipur** IIT Mandi **ADVANCE DIPLOMA (100 HRS) SALIENT FEATURES** BBA FINANCIAL MARKETS **Excellent University Results and Top** University Ranks **Business Analytics Using Power BI** Collaborations with Virtual Lab Banking & Insurance | HR Analytics Digital Marketing | International Business IIT Kanpur, Microsoft Centre of Excellence, ICT Academy Govt. of India A DATA SCIENCE Specialized Academic Clubs & Artificial Intelligence & Machine Learning Cloud Computing | Blockchain Technologies Extensive Industry Interactions Cyber Security | Internet of Things | Big Data Hadoop Job Oriented Industry Certified Dual Specializations (Since 2008) TOP Ranked Institute in India by India Today - MDRA Survey Ranking & GHRDC Best College Ranking Survey - 2025 Metro Connectivity from Delhi/Noida to I.T.S 22nd Batch AI/ML • IoT • Data Analytics • AR/VR

FREE TRANSPORT ON SELECTED ROUTES

MOHAN NAGAR, GHAZIABAD

Affiliated to CCS University, Meerut (NAAC A++ Accredited State University)

www.ug.its.edu.in

BOLD IDEAS. PURPOSIVE ACTION.

The next chapter of India's social impact story starts here.

India has a new generation of nation builders who are working towards a sustainable and socially responsible future.

At The Times of India Social Impact Summit, in partnership with Malabar Gold & Diamonds, we are honouring those who have achieved excellence in the domains of ESG and CSR. This event will bring together innovators and leaders from Non-profit, Corporate and Government organisations driving real change across the nation.



Shri Nitin Gadkari

Minister of Road Transport and Highways, Government of India

Date: 11th-12th July, 2025 Venue: Taj Lands End, Mumbai





Tech for Good: Using Innovation to Solve

Real-World Challenges India's Climate Moment: Powering Growth Through Innovation

Voices of Change: Youth Driving Social Impact

Education: Microlearning, Macro Impact - Bridging

the Learning Gap

Rethinking CSR in Public Health: Preventive, Inclusive & Scalable

Come, be part of the change.

Get ready for two days of meaningful conversations and interactive panels on a range of topics -

#CancelPatriarchy: Advancing Financial

Inclusive Communities

Independence for Women Feeding the Future- Sufficient, Safe, Nutritious

Empowerment: Beyond Tokenism - Building

Steering the Change: Rethinking Corporate Governance for Impact

27 28

26



29 30 31

- 40

 $-\omega$

🌃 🔉 🗵 in thetimesofabetterindia

THE TIMES OF INDIA

CHANGE Begins Here

25

PSU Partner

FUEL

Skill Partner

To express your interest in attending the event, scan this QR code or visit www.toisocialimpactsummit.com

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24